

ASHIANA GROUP
Symbol of Quality

आशियाना इस्पत लिमिटेड

पंजी. कार्या: ए-1116, रिक्को इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-III, पिआडी, जिला. अलवर (राजस्थान)-301019
E-mail:- ashianagroup@yahoo.co.in, Web - www.ashianaipat.in
CIN - L27107RJ1992PLC006611

31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही व वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण (रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष	
		31.03.2020 अंकेक्षित	31.12.2019 अंकेक्षित	31.03.2019 अंकेक्षित	31.03.2020 अंकेक्षित	31.03.2019 अंकेक्षित
1	प्रचालनों से कुल आय	6,399.28	6,244.20	12,404.94	30,979.00	44,113.44
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर से पूर्व, असाधारण और / या असाधारण मदों)	(559.07)	(715.47)	152.58	(1,179.95)	577.30
3	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और / या असाधारण मदों के बाद #)	(560.20)	(687.04)	112.25	(1,172.18)	427.27
4	अवधि के लिए कुल समग्र आय (अवधि के लिए शामिल लाभ / (हानि) (कर के बाद) और अन्य समग्र आय (कर के बाद))	-	-	-	-	-
5	इक्विटी शेयर पूंजी	796.48	796.48	796.48	796.48	796.48
6	आरक्षित (आरक्षित मूल्यांकन को छोड़कर)	-	-	-	-	-
7	अर्जन प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक के) (वार्षिकीकृत नहीं)	-7.03	-8.63	1.41	-14.72	5.36
	डायरेक्टिव	-7.03	-8.63	1.41	-14.72	5.36

- नोटः
- उक्त सेवा (सूचीबद्ध और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के नियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दायर 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही व वर्ष के लिए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का निष्कर्ष है। तिमाही परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट अर्थात् www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.ashianaipat.in पर भी उपलब्ध है।
 - आंकड़े जहां वर्तमान तिमाही के स्पष्टीकरण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं, पुनर्समूहित किए गए हैं।
 - उक्त परिणामों की अंकेक्षण समिति द्वारा समीक्षा की गई है और 28 जुलाई, 2020 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित हैं। अंकेक्षकों ने कंपनी के वित्तीय विवरणों पर असंशोधित विचार व्यक्त किए हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उन्हीं की ओर से आशियाना इस्पत लिमिटेड के लिए हस्ता./- (नरेश चंद जैन) अध्यक्ष, डीआईएन : 00004500

स्थान : दिल्ली दिनांक : 28.07.2020

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेंसिवेसुला बिजनेस पार्क, गणपतनगर कदम मार्ग, सोअर पोल, मुम्बई-400013 सीआरएन : U67190MH2008PLC187552
कच्चा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

[प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट कर के अनुसार]
जबकि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रवर्तन शक्तियों के उपयोग में टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते नीचे उल्लिखित के अनुसार कर्जदारों से कर्ज प्राप्त की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कर्जदार हुए और गौण सूचना निर्गत की।
अधिकृत द्वारा गौण के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण विवेक रूप से अर्जकर्ताओं तथा अनसमान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कर्जदारों के नियम 8 के साथ पठित कर्ज अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त प्रवर्तन शक्तियों के उपयोग में नीचे उल्लिखित समिति पर कर्जा कर लिया है।
व्यक्तिगत रूप से अर्जकर्ता और अनसमान्य को एतद्वारा समिति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और समितियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन नीचे उल्लिखित राशि तथा उपर ब्याज और नीचे उल्लिखित तिथि से दायतात्मक ब्याज, प्रचारों, लागतों आदि के लिए टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत का विषय होगा।
प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समग्र-तीका के बन्दर्भ में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अर्जक खाता सं.	दायित्वधारियों (व्यक्तिगत उन्नाधिकारियों) के नाम (प्रतिभूति हित) के नाम	गौण सूचना के अनुसार राशि	कच्चा करने की तिथि
9762641	श्री प्रीतम सिंह कर्जदार के रूप में तथा श्री अलका विष्ट एवं विमिषेट खल्लुखाना प्रा.लि. (सह-कर्जदार के रूप में)	21,10,2019 को रु. 1,48,40,721/-	23 जुलाई, 2020
10148526	श्री जगदीश दूबैन (कर्जदार के रूप में) तथा श्रीमती गौहर बेगम (सह-कर्जदार के रूप में)	22,01,2020 को रु. 21,24,277/-	23 जुलाई, 2020

प्रतिभूत आस्तियों/अचल सम्पत्ति का विवरण : आवासित अर्जकर्ता/क्रेडिट इकाई अर्थात् फ्लैट सं. जी-0202 का सम्पूर्ण भाग, भवन/टॉवर के रूप में टॉवर-जी, इबिका टॉवर, सुरकुण्ड रोड, फरीदाबाद, हरियाणा-121001 पर स्थित, माप क्षेत्रफल 2390 वर्ग फीट, विक्रय/आवंटन पर के अनुबन्धन में लिखित कॉमन सुविधाओं सहित।
10148526 श्री जगदीश दूबैन (कर्जदार के रूप में) तथा श्रीमती गौहर बेगम (सह-कर्जदार के रूप में) 23 जुलाई, 2020 को रु. 21,24,277/-

प्रतिभूत आस्तियों/अचल सम्पत्ति का विवरण : आवासित अर्जकर्ता मकान नं. एमसीएफ 648/2 का सम्पूर्ण भाग, भूमि माप 1 कनाल 7 मरला में स्थित, खेवट/खात सं. 3/9, रकट सं. 29, किला सं. 18 से निर्मित, ग्राम नरहेडा खंडा, निकट एएस एफ, कॉन्वेट स्कूल, समग्र रोड, राजीव कालोनी, तहसील बल्लभगढ़, जिला-फरीदाबाद, हरियाणा-121004 के क्षेत्र में, माप क्षेत्रफल 167 वर्ग गज।
तिथि : 29.07.2020 ह./- अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : फरीदाबाद, हरियाणा कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

परिशिष्ट IV
देखें नियम 8(1)
कच्चा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जब कि,
इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्सोटीराइजेशन एंड रिक्स्ट्रक्चर ऑफ फायनॉशियल असेट्स एंड एफोर्मेसिड ऑफ सिक्सोटीराइज्ड एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्सोटीराइज्ड (एफोर्मेसिड) रूप से, 2002 के तहत प्रवर्तन शक्तियों का उपयोग करके कर्जदार गौण गौण उर्फ गौण गौण और प्राची गौण उर्फ प्राची गौण उर्फ प्राची रस्तोमी को 24.01.2020 की सूचना में वर्णित के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLMER00196766 की राशि रु.31,43,382/- (रुपय इकतीस लाख तैतालीस हजार तीन सौ बत्तासी मात्र) और 24.01.2020 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से सात 60 दिनों के भीतर चुकाने का आवाहन करते हुए अभियान्य सूचना जारी की थी।
धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्सोटीराइज्ड (एफोर्मेसिड) रूप से, 2002 के तहत प्राण अधिकारों का कार्यन्वयन करके 27.07.2020 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है।
विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्वारा संश्लेषित के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रु.31,43,382/- (रुपय इकतीस लाख तैतालीस हजार तीन सौ बत्तासी मात्र) 24.01.2020 के अनुसार उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधीन होगा।
उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त करने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण
आवासित फ्लॉट/युनिट नं.204, जिसका परिचा 322.371 स्क्.यार्ड (269.541 स्क्.मी.)इमें सिटी, मेरठ प्रोजेक्ट नं. फेज II, गौव मलियाना, बागपत रोड, मेरठ - 250002, उत्तर प्रदेश सही/- दिनांक : 27.07.2020 प्राधिकृत अधिकारी स्थान : मेरठ इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

LARK TRADING AND FINANCE LIMITED
CIN: L34102UP1987PLC009222
Regd. off: C-273 Sector-63, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201301
Telephone: 011-22159466
Email: larktradingfinance@gmail.com, Website: www.larktrading.in

Extract of the Standalone Audited Financial Results for the Quarter and Financial Year Ended on March 31, 2020 (Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015)

Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
	31.03.2020	31.12.2019	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
Income					
(i) from operations	19.26	18.53	25.25	73.15	72.72
(ii) Other income	0.80	00.00	01.84	01.06	01.86
Total Income	20.06	18.53	27.09	74.21	74.58
Net Profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(20.04)	9.64	15.95	5.56	11.59
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(20.04)	9.64	15.95	5.56	11.59
Net Profit/(loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(14.53)	7.33	12.73	4.60	8.37
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(14.53)	7.33	12.73	4.60	8.37
Equity Share Capital	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year	-	-	-	170.39	165.79
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) for continuing and discontinued operations-					
1. Basic	(0.28)	0.14	0.24	0.09	(0.16)
2. Diluted	(0.28)	0.14	0.24	0.09	(0.16)
Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Yearly Financial Results is available on the websites of the Stock Exchange www.mseil.in and on the website of the Company at www.larktrading.in					

For Lark Trading and Finance Limited
Sd/-
(Sumit Tayal)
Whole time Director
DIN: 06598044

Date: 27/07/2020
Place: Noida

SHIVAM AUTOTECH LTD
पंजीकृत कार्यालय: 10, पहली मंजिल, टॉवर-ए, एमार्क डिजिटल ग्रीन्स, सेक्टर-61, गोलक कोर्स एक्सटेंशन रोड, गुरुग्राम, हरियाणा - 122102
टेलीफोन: 0124-4698700; फैक्स: 0124-4698798
ई-मेल: info@shivamautotech.com; वेबसाइट: www.shivamautotech.com

शिवम ऑटोटेक लिमिटेड
सीआईएन: L34300HR2005PLC081531

31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष हेतु अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का उद्घरण (रुपये लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	को समाप्त तिमाही			को समाप्त वर्ष	
		31 मार्च 2020	31 दिसम्बर 2019	31 मार्च 2019	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
		(अंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	11,489.54	14,357.45	17,068.39	58,887.68	63,695.15
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, विशिष्ट और / अथवा असाधारण मदों के पूर्व)	(2,395.75)	(1,439.77)	(1,448.79)	(5,424.26)	(1,369.76)
3.	कर पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) (विशिष्ट और / अथवा असाधारण मदों के पश्चात्)	(2,395.75)	(1,439.77)	(1,448.79)	(5,424.26)	(1,369.76)
4.	कर पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) (विशिष्ट और / अथवा असाधारण मदों के पश्चात्)	(1,316.94)	(913.68)	(2,242.62)	(3,713.47)	(1,821.45)
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ / (हानि) (कर पश्चात्) एवं अन्य व्यापक आय (कर पश्चात्) शामिल]	(1,350.23)	(915.09)	(2,260.41)	(3,750.99)	(1,827.09)
6.	समता अंश पूंजी	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
7.	सुरक्षित (पुनर्मूल्यांकन सुरक्षित के अतिरिक्त)	-	-	-	11,516.70	15,267.70
8.	प्रति शेयर आय (रु 2/- प्रत्येक) जारी एवं बंद प्रचालनों हेतु					
	- मूल	(1.32)	(0.91)	(2.24)	(3.71)	(1.82)
	- तरल	(1.32)	(0.91)	(2.24)	(3.71)	(1.82)

टिप्पणियाँ:

- उपरोक्त विवरण सेवा (सूचीबद्धता बाध्यातएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास दाखिल किए गए तिमाही एवं अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का उद्घरण है। तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.nseindia.com एवं www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.shivamautotech.com पर उपलब्ध है।
- 1 जुलाई 2017 के प्रभाव से वस्तु एवं सेवा कर (GST) के लागू होने के उपरान्त, प्रचालनों से राजस्व का खुलासा जीएसटी से शुद्ध किया गया है। तदनुसार, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु प्रचालन से आय पिछली अवधि के प्रस्तुत परिणामों के साथ तुलनीय नहीं है।

स्थान : गुरुग्राम दिनांक : 28 जुलाई, 2020

कृते एवं मंडल के आदेशानुसार हस्ता./- नीरज मुंजाल प्रबंध निदेशक

Website : www.shivamautotech.com

रेलिंगेयर हाउसिंग डेवलेपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.
पंजीकृत कार्यालय: पहली मंजिल, पी-14, 45/90, पी-ब्लॉक, कर्माट प्लेस, नई दिल्ली-110001
सेक्टर कार्यालय: पहली मंजिल, प्रीयस प्लाज्ड टॉवर, ए-3, 4, 5, सेक्टर-125, नोएडा-201301

नीलामी / बिक्री सूचना

मैसर्स रेलिंगेयर हाउसिंग डेवलेपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यहां के बाद "आरएचडीएसीएल" के रूप में संदर्भित) को गिरीषी अचल संपत्तियों की वित्तीय परिष्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) व 9 के अंतर्गत नीलामी बिक्री आयोजित करने के लिए एतद्वारा सूचित किया जाता है। चूंकि नीचे वर्णित ऋणी सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत इसक प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी सूचना दिधि 19.06.2015 के तिथि से 60 दिनों के भीतर बैंक को ऋण राशियों का भुगतान करने में असफल रहे हैं। चूंकि बैंक ने अपने प्राधिकृत अधिकारी को दी गई शक्तियों के अनुपालन में प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के प्रावधानों के अंतर्गत और सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के प्रावधानों के अंतर्गत और उसके अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में 07.12.2016 को नीचे वर्णित अनुसार गिरीषी संपत्ति का कच्चा ले लिया है। कच्चे लिए जाने के संबंध में सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(2) के अंतर्गत 09.12.2016 को बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी) और बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी) दिनांक 09.12.2016 के समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था। चूंकि इसके बाद भी ऋणी ने बैंक को उपरोक्त ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखित नियम व शर्तों पर इच्छुक खरीदारों से नीचे वर्णित संपत्ति / यों के लिए मुहरबंद कवर में बोलियां सह नीलामी आमंत्रण की प्रक्रिया के माध्यम से "जहां है जैसी है", "जो है जैसी है" और "जहां कहीं भी है" के आधार पर नीचे दी संपत्ति / यों की बिक्री का निर्णय लिया है।

ऋणी का नाम व पता : श्री रविंद्र रावल व रमेश रावल व मुकेश रमेश सभी निवासी प्लॉट नं. 430, चौहान कॉम्प्लेक्स, लाल कोठी गांउची, बल्लभगढ़, फरीदाबाद हरियाणा-121004

प्रतिभूत ऋण (रु. में राशि) - रु. 24,27,890.87 /- (रुपय चौबीस लाख सत्ताईस हजार आठ सौ नब्बे और पैसे सत्तासी केवल) 19.06.2015 तक भावी ब्याज व लागतों सहित

संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
म.नं. 40 खेरी गुजरन भाग-1, बल्लभगढ़ सोहाना रोड फरीदाबाद हरियाणा-122103	Rs. 16,50,000/-	Rs. 1,65,000/-

(ए) बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2020 को मैसर्स रेलिंगेयर हाउसिंग डेवलेपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि., पहली मंजिल, जोवाईएस टॉवर, ए-3 / 4, सेक्टर 125, नोएडा-201301 (बी) बोली / नीलामी के खुलने का समय व स्थान : 19 अगस्त, 2020 को सुबह 11.00 बजे उक्त पते पर

बिक्री के नियम व शर्तः

- उक्त संपत्ति को पूर्ण विवरण प्राधिकृत अधिकारी के पास उपलब्ध है। संपत्तियों / दस्तावेजों की जांच प्राधिकृत अधिकारी के साथ तिथि व समय निर्धारण करने के बाद की जा सकती है।
- इच्छुक बोलीदाताओं को 17 अगस्त, 2020 तक या पहले मैसर्स रेलिंगेयर हाउसिंग डेवलेपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा ईएमडी का सहित "रविंद्र रावल की संपत्ति को नीलामी / बिक्री के लिए बोली" लिखे मुहरबंद कवर में उक्त वर्णित पते पर प्राधिकृत अधिकारी को अपनी बोलियां भेजनी होंगी।
- मुहरबंद बोलियां 19 अगस्त, 2020 को खोली जाएंगी और इसके बाद योग्य बोलीदाताओं को प्रस्ताव मूल्य को बढ़ाने के लिए इंटरेन-स-बोली में भाग लेने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के नियंत्रण पर एक अवसर दिया जाएगा।
- सफल बोलीदाता को उसी दिन मैसर्स रेलिंगेयर हाउसिंग डेवलेपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दिल्ली के पक्ष में डीडी / बैंक द्वारा बोली राशि (ईएमडी सहित) का 25 प्रतिशत जमा करना होगा और शेष बैंक द्वारा बिक्री के सुनिश्चितकरण की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा चुकता ईएमडी के साथ-साथ बिक्री मूल्य पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। ईएमडी की जमा या बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत मार्गला "बाह्य कुछ भी है" अंतर्राष्ट्रीय एसीएल" द्वारा जमा कर लिया जाएगा, यदि असफल बोलीदाता बिक्री की शर्तों को पालन करने या बिक्री प्रतिबद्धता में असफल रहता है।
- सफल बोलीदाता को समग्र नियम या किसी अन्य प्राधिकरण को वैधानिक देय / करों / बिलों आदि के सहित सभी व्ययों और बिक्री प्रमाणपत्र के लिए पंजीकरण के लिए स्टैंडि शुल्ड, पंजीकरण शुल्क आदि के लिए देययोग्य शुल्क का वहन करना होगा।
- बैंक किसी प्राधिकरण से किसी अनुमति / एनओसी की खरीद या प्रस्तावित संपत्ति के संबंध में बल में किसी कानून के अंतर्गत या कोई अन्य देय अर्थात् बकाया नानी / बिलों की शर्तों, संपत्ति कर या अन्य शुल्क यदि कोई है के लिए किसी तरह से भी उत्तरदायी नहीं है।
- प्राधिकृत अधिकारी को किसी या सभी प्रस्तावों / बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने या निम्न कोई कारण बताए बिक्री को आगे बढ़ाने / रद्द करने या बिना किसी पूर्व सूचना के बिक्री नियम में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार है।
- "आरएचडीएसीएल" के बेहतर ज्ञान या जानकारी से, ये "आरएचडीएसीएल" को छोड़कर बिक्री की जाने वाली संपत्तियों पर किसी ऋणधार से अवगत नहीं है। इच्छुक पार्टियों के लिए संपत्ति की स्वयं जांच करनी चाहिए। बैंक उपरोक्त संपत्तियों के फिटनेस / टाइटल के संबंध में कोई दावा नहीं रखता है या कोई प्रतिनिधि नहीं बनाता है।
- किसी अन्य जानकारी के लिए, श्री नवन गौर जोगावल नं. 993815004, श्री इकरार खान नं. नं. 9998952906 से उक्त पते पर संपर्क किया जा सकता है।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 8(2), 8(6) व 9(1) के अंतर्गत 15 दिनों की वैधानिक सूचना

ऋणी / सह-ऋणियों / गारंटियों / गिरीषीकर्ताओं को एतद्वारा नीलामी से पहले उक्त तथे की तिथि को कच्चा व सहायक व्ययों के सहित उक्त वर्णित अनुसार सही का अनुपालन करने के लिए सूचित किया जाता है असफल होने पर उक्त वर्णित निररी संपत्तियों की नीलामी को जारी और शेष यदि कोई है आग्रे उक्तपर ब्याज / लागत के साथ वसूल किया जाएगा।

प्राधिकृत अधिकारी
मैसर्स रेलिंगेयर हाउसिंग डेवलेपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
नोट : सरफेसी मांग सूचना के जारी होने के बाद यदि किसी राशि का भुगतान किया गया है तो वसूली/सेटलमेंट के समय पर भुगतानयोग्य ऋणों को निर्वाहित करने के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।

दिनांक 29.07.2020, स्थान : दिल्ली

NIIT technologies
एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड
CIN : L72100DL1992PLC048753
पंजी. कार्यालय : 8, बालाजी एस्टेट, तृतीय तल, गुरु रवि दास मार्ग, कालकाजी, नई दिल्ली - 110019.
फोन : 91 (11) 41029297, फैक्स : 91 (11) 26414900
वेबसाइट: http://www.niit-tech.com; ई-मेल: investors@niit-tech.com

30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही हेतु समेकित एवं पृथक्कृत परिणामों का विवरण (रु. मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	पृथक्कृत				समेकित			
		तिमाही समाप्त	पूर्ववर्ती तिमाही समाप्त	संगत तिमाही समाप्त	पूर्व वर्ष समाप्त	तिमाही समाप्त	पूर्ववर्ती तिमाही समाप्त	संगत तिमाही समाप्त	पूर्व वर्ष समाप्त
		30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019	31.03.2020	30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019	31.03.2020
1.	परिचालन से कुल आय	5,765	5,581	5,382	22,310	10,570	11,093	9,627	41,839
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ (कर, अपवाद मदों से पहले)	1,230	1,251	1,290	4,873	1,269	1,718	1,159	6,025
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ कर से पहले (अपवाद मदों के बाद)	1,230	1,251	1,290	4,873	1,089	1,590	1,216	5,954
4.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ कर पश्चात्	1,084	1,174	1,116	4,225	829	1,242	898	4,676
5.	अवधि हेतु कुल सन्मिलित आय	1,217	1,029	1,143	3,874	1,054	1,181	834	4,777
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	605	625	618	625	605	625	618	625
7.	अन्य इक्विटी	-	-	-	19,126	-	-	-	23,340
8.	प्रति शेयर अर्जन (अपवाद मदों के बाद) (रु. 10/- प्रत्येक का) (वार्षिकीकृत नहीं)								
	1. मूल	17.40	18.79	18.06	67.93	12.82	18.18	14.18	71.39
	2. तनुकृत	17.24	18.77	1					